

सैनिक स्कूल गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
प्रवेश प्रक्रिया हेतु जारी दिशा-निर्देश- सत्र 2025-26

संलग्नक:-

- (A) प्रवेश के समय जमा कराए जाने वाले प्रमाण पत्रों की सूची
- (B) एग्रीमेंट बॉन्ड रु0 100/-के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवाकर साथ लाना है।
- (C) इन्डेमिटी बॉन्ड रु0 50/- के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवाकर साथ लाना है।
- (D) शपथ पत्र रु0 10/-के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवाकर साथ लाना है।
- (E) जनरल इंफार्मेशन फार्म दो प्रतियों में पूर्णतः भरकर एवं फोटो लगा कर साथ लाना है।
- (F) फ़ैमिली फोटो चिपकाकर एवं परिवार के सदस्यों का नाम लिखकर लाना है।
- (G) यूनीफार्म की माप हेतु निर्धारित प्रारूप को भरकर ईमेल करना है।
- (H) कैंडेट एवं उनके अभिभावकों हेतु DO'S & DON'T

उद्देश्य:

1. कक्षा 9 (शैक्षणिक सत्र 2025-26) में प्रवेश के लिए चयनित छात्राओं के अभिभावकों को विद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों के बारे में अवगत कराना एवं उनका पालन करना।

विद्यालय का पता :

2. सैनिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मानबेला, फर्टिलाइजर कालोनी के मेडिकल कॉलेज मार्ग पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 07 कि.मी. दूर स्थित है। यहाँ आने के लिए ऑटो एवं टैक्सी सेवा रेलवे स्टेशन के समीप उपलब्ध रहती है।

आगमन:

3. आपको अपने पाल्य के साथ स्कूल में उपस्थित होने की सूचना पृथक से दी जाएगी अभी केवल ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा करना है एवं यूनीफार्म की माप निर्धारित प्रारूप पर भेजनी है।

स्कूल फीस:-

- 4.

क्र.सं.	मद	सामान्य शुल्क
(क)	स्कूल फीस	50000.00
(ख)	मेंटीनेन्स चार्ज (वार्षिक)	2000.00
(ग)	धरोहर राशि (एक बार)	5000.00
(घ)	पॉकेटमनी (वास्तविक व्यय)	5000.00
(ङ)	कम्प्यूटर शुल्क (वार्षिक)	1500.00
(च)	हाउस फण्ड (वार्षिक)	1000.00
(छ)	मेडिकल शुल्क (वार्षिक)	1000.00
(ज)	स्कूल यूनीफार्म (वास्तविक व्यय)	20000.00
(झ)	स्पैक्स(SPACS) टेलीफोन (वार्षिक)	2160.00
(ञ)	एन.सी.सी. एवं इससे संबंधित अन्य शुल्क (वास्तविक व्यय)	2000.00
(ट)	मेडिकल इमरजेंसी फण्ड (आकस्मिक परिस्थिति में किसी अस्पताल के भर्ती शुल्क हेतु, उपयोग न होने की दशा में वापस कर दिया जाएगा)	10000.00
(ठ)	बोर्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क (वार्षिक)	500.00
	कुल योग	1,00,160.00

उपरोक्त अंकित धनराशि एकमुश्त स्कूल के निर्धारित खाते में जमा करना अनिवार्य है। अधूरी धनराशि स्वीकार नहीं की जाएगी। स्कूल फीस में शासन द्वारा वृद्धि किये जाने पर उसका भुगतान करना होगा।

भुगतान की विधि:

5. कुल धनराशि रु0 **1,00,160.00** निम्नलिखित खाते में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य है। नकद भुगतान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुल्क जमा करने का साक्ष्य/विवरण छात्रा के विवरण के साथ ईमेल आईडी **sainikschoolgorakhpurup@gmail.com** पर भेजना सुनिश्चित करें।

Account Holder Name	Bank Account Number	Bank & Branch Name	IFSC Code
Principal, Sainik School Gorakhpur, UP	42664857300	State Bank of India Jhungia, Gorakhpur, UP	SBIN0004810

6. उपरोक्त प्रस्तर 5 के अनुसार निर्धारित धनराशि नियत तिथि (..... 2025) तक जमा न करने पर आपकी पुत्री का प्रवेश निरस्त समझा जाएगा एवं वरीयता के अनुसार दूसरे अभ्यर्थी को अवसर दिया जाएगा।

यूनीफार्म की माप:

7. इस पत्र के संलग्नक (G) पर उपलब्ध यूनीफार्म की माप हेतु निर्धारित प्रारूप को किसी टेलर से भलीभाँति माप करवाकर एवं भरकर ईमेल आई डी **sainikschoolgorakhpurup@gmail.com** पर भेजना सुनिश्चित करें।

प्रमाण पत्र:

8. संलग्नक (A) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रवेश के समय जमा करना अपरिहार्य हैं। प्रमाण पत्रों के अभाव में प्रवेश अस्थायी (Provisional) तौर पर दिया जाएगा जो कि 30 अप्रैल 2025 तक प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में निरस्त कर दिया जाएगा।

एग्रीमेन्ट बांड:

9. सभी अभिभावकों को प्रवेश के समय संलग्नक (B) के अनुसार एग्रीमेन्ट बांड रु0 100/- के स्टैम्प पेपर पर, संलग्नक (C) के अनुसार इन्डेमिन्टी बॉण्ड रु0 50/- के स्टैम्प पेपर पर एवं एफीडेविट संलग्न (D) के अनुसार जमा करना है। संलग्नक (B) पर दो राजपत्रित अधिकारियों (*gazetted Officer*) के हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।

10. सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि अपना सम्पर्क माध्यम (फोन, मोबाइल, ईमेल), पत्र व्यवहार का पूरा पता पिन कोड सहित स्कूल को देना अपरिहार्य है। यदि उपरोक्त में कोई परिवर्तन होता है तो तुरन्त विद्यालय को सूचित करें जिससे आवश्यकता पड़ने पर आपसे संपर्क किया जा सके। उपरोक्त जानकारी सही न होने की स्थिति में यदि कोई सूचना आप तक नहीं पहुँचती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। यह भी अनुरोध है कि अपनी पुत्री का एक बचत खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्राथमिकता के आधार पर खुलवा दें जिसका उपयोग एन. सी.सी. गतिविधियों के लिए होगा।

(अग्निवेश पाण्डेय)
ले0 कर्नल(डॉ0)
प्रधानाचार्य

संलग्नक :-उपरोक्तानुसार

CERTIFICATES TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF ADMISSION

1. Transfer Certificate from the school last attended duly counter signed by District Inspector of school in original.
2. Domicile certificate of candidate from the District Magistrate or authorized by DM in original and 01 photocopy.
3. Caste Certificate (SC/ST/OBC/EWS-GEN) from competent authority in original and 01 photocopy.
4. Birth Certificate issued by the Distt Registrar birth /Municipal Corporation in original and 01 photocopy.
5. Photocopy of Aadhar card of candidate, mother and father
6. Marksheet of previous class in original and one photocopy
7. PEN (Permanent Education Number) and Aaar ID provided by previous school duly certified by the school.
8. Agreement bond as per appendix (B)
9. Indemnity Bond as per appendix (C)
10. Affidavit as per appendix (D)
11. 02 Passport size photograph of candidate, Father, Mother, local guardian each and one family photograph
12. Photocopy of candidate's Passbook (SBI) first page consisting account holder details.

(To be made on Rs. 100/- Non Judicial Stamp paper)

SAINIK SCHOOL GORAKHPUR UTTAR PRADESH, AGREEMENT BOND

Agreement form to be executed by Parents/Guardians of the Sainik School Gorakhpur Uttar Pradesh.

1. This Agreement is made on this (DD/MM/YYYY) between _____ (Father/Mother) S/O or D/O Shri _____
Village : _____ PO : _____ Tehsil : _____
District : _____ (here in after

called the guarantor, which expression shall unless excluded by the context or the meaning thereof be deemed to include his herein executors, administrators and legal representatives) on the one part and the Board of Governors, Uttar Pradesh Sainik Schools Society (herein after called the Governor's which expression shall unless excluded by the context of the meaning thereof be deemed to include the Principal of the Sainik School Gorakhpur Uttar Pradesh) on the other part.

2. WHEREAS..... (Candidate Name) S/O or D/O of.....

(herein after called the Cadet) is the son/daughter of the guarantor and has at the request of the guarantor been selected for admission to the Sainik School Gorakhpur Uttar Pradesh, interlaid, on the terms and conditions herein after appearing for the purpose of receiving education with a view to making Regular Armed Forces his/her profession in life, if considered suitable by the appropriate authority.

3. NOW IT IS HEREBY AGRREED BY and between the parties here to as follows:-

That in consideration of the cadets being admitted by the Governors to the Sainik School Gorakhpur Uttar Pradesh for the purpose of the aforesaid education at the request of the guarantor.

(a) The guarantor hereby undertake, that he/she will withdraw his/her child School No _____ Name _____ (Candidate Name) from Sainik School Gorakhpur Uttar Pradesh, if he/she does not adjust to the School routine or runs away from School. Being the part of Military based institution, cadet has to attend PT, Games and evening stage activities. In case he/she is not suited to the busy routine of this School or tries to run away from the School without permission, then the guarantor will immediately withdraw his/her child/ward from the School without blaming School authorities and defaming School reputation. In the event of being withdrawn from the School, the guarantor will pay the cost of training as decided by the authorities. Also he/she will not be issued any certificate till the time his dues are cleared.

(b) The guarantor shall pay to the Governors regularly and promptly and whenever called upon to do so all the fees, fines, subscriptions and other charges and expenses as prescribed in respect of the cadets for education at the said school and also have no objection in paying the fees of the School, whenever, it is increased.

The guarantor also understands that in case the said fees, fines, subscriptions and all other charges in respect of the Cadet of the said school are not paid by the due date, he/she is liable to be removed with penalty from the school and his/her candidature for the Board or SSB will be cancelled. Also he/she will not be issued any certificate till the time his/her dues are cleared.

(c) The guarantor hereby undertake, that if his/her ward does not take the competitive examination of the Union Public Service Commission for admission to the National Defence Academy and after joining the Academy fails to complete the training there for the entry into Regular Armed Forces or fails to join the Regular Armed Forces after completing the training at the said Institution, then the guarantor will refund to the government the value of Scholarship availed by his/her ward during his/her stay at Sainik School Gorakhpur Uttar Pradesh. This will also be the position if he/she leaves the said school at any intermediate state without taking the available examination. Also he/she will not be issued any certificate till the time his dues are cleared.

(d) That if after admission, any of the following viz proof of domicile certificate of age, qualifications and statement of income supplied by the guarantor, is found to be false in any way and are not in order, the guarantor shall forthwith pay full fee to the Governors. The amount of which will be intimated to him in due course for the period the cadet was in the said school less the amount already paid by him as school fees at the concessional rate. Also he/she will not be issued any certificate till the time his dues are cleared.

(e) That if after admission the cadet is found to be medically unfit in any way at the time which might, according to the opinion of the appropriate medical authority, render him unfit for future entry to the regular Armed Forces, the cadet will be withdrawn at once but it would be open to the guarantor to retain him at the school from date he/she is found medically unfit till the end of the particular academic session subject to his/her good behaviour on payment of the full fee prescribed by the Governors for the said period.

(f) That if at any time it is found that the cadet is not making satisfactory progress in studies or fails in any of the annual examination or not eligible for promotion to next class as per existing policy of the school, he/she will be removed from the school.

(g) He/she, the guarantor hereby undertake, that he/she will be responsible for his/her ward's discipline and good conduct and in the event of being withdrawn from the School, will pay the cost of training as decided by the authorities. He/she further declare that if his/her son/daughter is involved/found in any incident of breach of discipline, he/she will personally withdraw his/her ward from the School without blaming the School authorities and defaming School reputation. Also he/she will not be issued any certificate till the time his dues are cleared.

(h) That the Governors will not be liable for any damage/charges on account of injuries which may be sustained by any cadet at any time during his/her stay in the school while taking part in P.T., sports, athletics or other co-curricular activities including horse riding and swimming in the school or any collective training inside or outside the school including educational tours, hikes and adventure courses and camps. All expenses that may be incurred on treatment of such injuries will be borne by the parent/guardians as provided in the rules of the said school.

(j) And that if there is any dispute as to the effect or meaning of this agreement the same shall be referred to the sole arbitration of such person, as the Chairman Local Board of Administration may nominate for the purpose and the decision of such person shall be final and binding.

IN WITNESS WHERE OF **PRINCIPAL, SAINIK SCHOOL GORAKHPUR UTTAR PRADESH** has set his hand and by order and direction of the Board of Governors has set his hand the day and the year first above written.

Signed by Parent/ guardian
In the presence of

1st witness-----
Signature Name & Address

Signed by the Principal for and
on behalf of the Board of
Governors U.P. Sainik Schools
Society

2nd witness-----
Signature Name & Address

** Witness should be a gazetted officer or any guardian of student taking admission in the same class.*

INDEMNITY BOND
(To be Executed on Non Judicial Stamp paper worth ₹ 50/-)

The President of India,

In consideration of _____ (Candidate Name) minor of whom I am the legal/natural guardian being trained at my request in Sainik School Gorakhpur Uttar Pradesh.

Name of Child	Date of Birth	Father's Name	Mother's Name	Guardian's Name

I undertake and agree that neither I nor my executor or administrator or any other legal representative will make any claim against the Govt or against any Officer/other rank or civilian employees of Sainik School Gorakhpur Uttar Pradesh or against any person in the service of Govt in respect of any loss or any injury to property or person including injury resulting in death which the said minor may suffer.

I further agree so as to bind my self, my heirs, my executors and administrators to indemnify you and any officer or other rank or civilian employees of Sainik School Gorakhpur Uttar Pradesh and any person in the service of the Govt against any claim which may be made by any third party against you or any of them arising out of any act of default on the part of the said minor or in connection with the training being imparted at Sainik School Gorakhpur Uttar Pradesh.

(Signature of Parent/Guardian)

Witnesses

1. Signature: _____
Name : _____
Address:_____

2. Signature _____
Name : _____
Address:_____

AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN
(To be Executed on Non Judicial Stamp paper worth ₹10/-)

1. I, _____ (full name of parent/guardian) father/mother/guardian of _____ (full name of student with admission/registration/enrolment number), having been admitted to Sainik School Gorakhpur Uttar Pradesh.
2. I, _____ (full name of parent/guardian) S/O or D/O Shri _____ Village : _____ PO : _____ Tehsil : _____ District : _____ is original and permanent resident of Uttar Pradesh.
3. I have read, understood & follow the rules/guidelines of the said school as mentioned in the School Prospectus available on the school website.
4. I am fully aware of what constitutes ragging.
5. I am also fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of indulging in or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
6. I hereby solemnly aver and undertake that :-
 - (a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging.
 - (b) My ward will not participate in or abet or propagate any act of commission or omission that may be constituted as ragging.
7. I hereby accept that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment without prejudice to any other criminal action that may be taken against him/her under any penal law or any law for the time being in force.
8. I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of ward is liable to be cancelled. Declared this Day of month of year.

Signature of deponent
Name :
Address :
.....
Telephone/ Mobile No.....

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein. Verified at(place) on this the..... (day) of..... (month),.....(year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the(day) of..... (month)(year) after reading the contents of this affidavit.

**OATH
COMMISSIONER**

GENERAL INFORMATION FORM

(To be filled by the parent at time of admission in CAPITAL LETTER) (two copies)

Roll No. School No. /House

(TO BE FILLED IN BLOCK CAPITAL LETTERS)

NAME OF CADET :

DATE OF BIRTH : BLOOD GROUP.....

FATHER'S NAME :

MOTHER'S NAME :

PROFESSION OF FATHER:.....

PROFESSION OF MOTHER:.....

NAME OF SIBLINGS :1.

2. :

CADET'S AADHAR NO. :

CORRESPONDANCE ADDRESS:.....

.....

.....PIN

PERMANENT ADDRESS :

.....

.....PIN.....

MOBILE NO. OF PARENT:

WHATSAPP NO OF PARENT:

EMAIL OF PARENT/CADET:.....

NAME & ADDRESS OF LOCAL GUARDIAN:.....

.....

MOBILE NO. OF LOCAL GUARDIAN:

Latest Passport size photo of Cadet

Latest Passport size photo of father

Latest Passport size photo of mother

Latest Passport size photo of local guardian

SIGNATURE OF PARENT'S

NOTE: Please intimate school when there is any change in the above information at earliest to this office

**Paste
Latest Postcard size Family Photo**

NAME OF THE FAMILY MEMBERS WITH AGE

S.No.	Name	Age	Relation with candidate

SIGNATURE OF PARENT'S


MEASUREMENT OF UNIFORM

(Measurement to be done by the professional tailor and to be entered in inches only)

ROLL NO/SCHOOL NO :- HOUSE :-

CLASS & SECTION :- GENDER :-

NAME OF CADET :-



No. 1	Around Collar	
No. 2	Shoulder Width	
No. 3	Back Width	
No. 4	Around Chest	
No. 5	Shirt length	
No. 6	Elbow Length	
No. 7	Arm Length	
No. 8	Around Waist Shoulder to Waist (Back)	
No.9	Around Arm	
No.10	Around Hip	
No.11	Hip Height	
No.12	Crotch Length	
No.13	Total Leg Length	
No.14	Inside Leg Length	
No.15	Around Leg	
No.16	Knee Length	
No.17	Total Height	
No.18	Shoulders	
T-Shirt Size – 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42		
Shoes Size – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		
Blazer Size – 36, 38, 40, 42		

DO'S AND DON'TS FOR CADETS

Do's :

- ✓ Must come to classes/assemblies/lectures on time.
- ✓ समय पर कक्षाओं में आएं।
- ✓ Always be in proper dress as per school routine like PT, Breakfast, Classes, Lunch, Games, Evening Preps and Dinner.
- ✓ स्कूल की दिनचर्या के अनुसार उचित पोशाक में रहें।
- ✓ Be regular in attendance and follow the School Routine.
- ✓ उपस्थिति में नियमित रहें और स्कूल रूटीन का पालन करें।
- ✓ Come to class with proper materials like notebook, book, pen etc.
- ✓ उचित सामग्री जैसे नोटबुक, किताब, कलम आदि लेकर कक्षा में आएं।
- ✓ Complete your work on time and respect the given deadline.
- ✓ अपना काम समय पर पूरा करें और दी गई समय सीमा का सम्मान करें।
- ✓ Be fair and honest at work.
- ✓ काम में निष्पक्ष और ईमानदार रहें।
- ✓ Participate actively and contribute.
- ✓ स्कूल के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लें और योगदान दें।
- ✓ Respect your parents, teachers, elders, friends and schoolmates.
- ✓ अपने माता-पिता, शिक्षकों, बड़ों, दोस्तों और सहपाठियों का सम्मान करें।
- ✓ Make your bed every day .Keep the room and campus neat and clean.
- ✓ अपना बिस्तर प्रतिदिन बनाएं। कमरे और परिसर को साफ सुथरा रखें।
- ✓ Save water and electricity. Switch off Fans, Light and close water taps while leaving the room.
- ✓ पानी और बिजली बचाएं। कमरे से बाहर निकलते समय पंखे, लाइट और पानी के नल बंद कर दें।
- ✓ Use dustbin installed at different places.
- ✓ अलग-अलग जगहों पर लगे कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
- ✓ Follow proper conduct & discipline in Cadet Mess.
- ✓ कैडेट मेस में उचित आचरण और अनुशासन का पालन करें।

Don'ts :

- ✗ Do not bunk classes.
- ✗ क्लास बंक न करें।
- ✗ Do not use abusive language.
- ✗ अभद्र भाषा का प्रयोग न करें।
- ✗ Do not damage school property.
- ✗ स्कूल की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।
- ✗ Mobile Phone or any electronic gadgets are not allowed in the premises. Action will be taken against defaulters. Parents not to give mobiles to their ward.
- ✗ परिसर में मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति नहीं है। फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। अभिभावक अपने पुत्र या पुत्री को फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट न दें।
- ✗ Do not shout and disturb the classroom at any point of time and in the premises.
- ✗ किसी भी समय कक्षा में शोर न करें एवं दुसरे साथियों या अध्यापक को परेशान न करें।
- ✗ Indiscipline activities will be viewed seriously. Ragging in any form is not acceptable. Action will be taken in accordance with hon'ble Supreme Court guidelines/ judgement.
- ✗ अनुशासनहीनता की गतिविधियों को गंभीरता से लिया जाएगा। रैगिंग किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों/निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- ✗ Don't leave the premises without prior permission.
- ✗ बिना अनुमति के परिसर से बाहर न निकलें।
- ✗ Outsiders / relatives are not allowed in hostel area.
- ✗ छात्रावास क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति/रिश्तेदारों की अनुमति नहीं है।
- ✗ Do not leave cash or valuable items in the dormitories.
- ✗ कमरों में नकदी या कीमती सामान न छोड़ें।

DO'S AND DON'TS FOR PARENTS

Do's :

- ✓ Be in touch with school authorities.
- ✓ स्कूल के अधिकारियों के संपर्क में रहें।
- ✓ Monitor progress of your ward.
- ✓ अपने वार्ड की प्रगति की निगरानी करें।
- ✓ Speak to Class Teacher/House Masters/House Matrons regularly.
- ✓ क्लास टीचर/हाउस मास्टर्स/हाउस मैट्रन से नियमित रूप से बात करें।
- ✓ Attend PTMs
- ✓ शिक्षक अभिभावक बैठक (पीटीएम) में अवश्य में भाग लें।
- ✓ Educate your ward in terms of discipline & studies.
- ✓ अपने बच्चे को अनुशासन और पढ़ाई के मामले में शिक्षित करें।
- ✓ Visit school frequently and meet authorities and ask progress about your ward.
- ✓ बार-बार स्कूल आएं और स्कूल प्रशासन से मिलें।
- ✓ Your contribution is **MUST** for the growth and overall development of your ward.
- ✓ आपके वार्ड के विकास और समग्र विकास के लिए आपका योगदान आवश्यक है।
- ✓ Educate your ward to be respectful with all & truthful with himself.
- ✓ अपने वार्ड को सभी के प्रति सम्मानजनक होने के लिए शिक्षित करें।
- ✓ Educate your ward for not involving in Ragging & indiscipline activities.
- ✓ रैगिंग एवं अनुशासनहीनता में शामिल न होने के लिए अपने बच्चे को शिक्षित करें।
- ✓ Whenever called by school authorities, respond immediately.
- ✓ जब भी स्कूल प्रशासन द्वारा बुलाया जाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया दें।
- ✓ We together can make a difference.
- ✓ हम एक साथ छात्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रयास कर सकते हैं।
- ✓ You are welcome for creative and sensible advices.
- ✓ रचनात्मक और उचित सलाह के लिए आपका स्वागत है।
- ✓ Feel free to contact.
- ✓ संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।
- ✓ Adhere to the laid down timings & days when you are visiting your ward.
- ✓ अपने वार्ड से मिलने के लिए विद्यालय द्वारा निर्धारित दिन व् समय का पालन करें।

Don'ts :

- ✗ Don't give mobile to your ward.
- ✗ अपने वार्ड को मोबाइल न दें।
- ✗ Don't give cash to your ward.
- ✗ अपने वार्ड को नकदी या अन्य कीमती चीजें न दें।
- ✗ Don't visit dormitories of the Cadets.
- ✗ कैडेटों के छात्रावास में न जाएं।
- ✗ Mobile Phone or any electronic gadgets are not allowed in the premises. Action will be taken against defaulters. Parents not to give mobiles to their ward.
- ✗ परिसर में मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अनुमति नहीं है। फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। अभिभावक अपने पुत्र या पुत्री को फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट न दें।